



STEPHENS

INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL



Holidays' Homework

Session – 2024-25

Class: 3



Dear Parents,
Greetings of the day!!!

"Summer is a time to relax, recharge and reconnect with yourself. Let's go of all worries, immerse yourself in tranquility and inner peace amidst the chaos of life ."



Students should use their **Summer Break** to relax and enjoy their free time. It's also a great time to take a break, hang out with loved ones and explore new interests or hobbies. Now it is the perfect moment to unleash their creativity and make the most of their time spent at home. **Holidays' homework and Projects' work** have been provided, which will keep the students engaged and ensure that they have a productive break. It has been carefully considered that the summer vacation homework and project work should be engaging, entertaining and impressive.



WHAT SHOULD STUDENTS do in summer vacation?



Wake up early in the morning

Follow a fitness regime

Indulge in new sports or games

Study for an hour

Try to learn something new

Maintain good health & hygiene

Volunteer with a community group





Dear Students,
May you keep enjoying God's countless blessings!

**"SUMMER VACATION IS NOT JUST A BREAK, IT'S A CHANGE TO
RECHARGE AND COMEBACK STRONGER."**


As summer break approaches, it's time for you to rejuvenate, relax and enjoy. This is an excellent opportunity not only to have fun but also to be a helping hand at home. Assisting your parents with household chores can be a wonderful way to learn new skills and contribute to your family. Remember, this break is a chance to balance leisure and responsibility. Read inspirational books, engage in creative activities and explore new hobbies. Stay active and healthy, mentally and physically. You must ensure that you stay hydrated and shielded from the heat waves in order to maintain a balanced routine. Always keep in mind that you have the potential to achieve great things and this summer is another step in your journey towards success.

I hope the world's happiness for you. "May the summer vacation fill your life - with joy and good vibes." Without a doubt, summer vacation is the nicest season of the year. I hope you have a wonderful summer filled with memories. Have a fantastic and fulfilling summer break!



ENGLISH


" Once you learn to read , you will be forever free."


- **Read chapter 3 (Simon Says).**
 - **Revise all the work done in the class.**
 - **Write 10 pages of cursive writing.**
 - **Make a Diary for yourself using different ideas and colorful papers and write few lines daily on - How do you help your family everyday ?**
- 



"Maths is the language of the universe."

- Practise Chapter 3 (Subtraction).
- Learn tables from 2 - 7.
- Cut and paste different types of geometrical shapes in the scrapbook.





- **Read chapter 7 (Work around us).**
- **Revise all the work done in the class.**
- **Make a list of five national sport competitions in which sportspersons from our country participated. Also note down the names of the sportspersons(any six) with their pictures on the scrapbook.**





Refreshing Mint + Lime Slushy



Ingredients Needed:

- Lime Juice– 5–6 tbsp
- Honey– ½ cup
- Fresh mint leaves– ¼ cup
- Cold water – 2 cups
- Ice– 5 to 6 cups



How to Prepare:

Step 1: Add all the above ingredients to a blender until the ice breaks into small slushy sizes. Add cold water or ice is required till you reach the desired consistency.

Step 2: Pour into glasses or jars, then top with two mint leaves and a straw.

Step 3: Embrace this perfect sugar-free summer drink with your family.






**HAPPY
Father's
DAY**

Father's Day is on 16 June. So pamper your father/grandfather. Make him feel special in every small way.

Make a special greeting card for your father and express your appreciation for him, his love and support for you.





हिन्दी

प्रश्न १ नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

चींटियाँ बहुत मेहनती होती हैं। वे एक-दूसरे की मदद करती हैं। वे कभी आलस नहीं करतीं। बरसात का मौसम आने से पहले अपने लिए खाना इकट्ठा करती रहती हैं क्योंकि तब वे पानी से बाहर नहीं निकल सकतीं। गिर-गिरकर चढ़ना, असफलता से निराश ना होना चींटी से सीखना चाहिए। इनमें सुनने की शक्ति होती है। ये एक दूसरे की गंध लेकर पीछे चलती है।

क) चींटी का स्वभाव कैसा होता है?

ख) चींटियाँ बरसात से पहले खाना क्यों इकट्ठा करती हैं?

ग) चींटी से क्या सीखना चाहिए?



घ) चींटी में कौन- सी शक्ति होती है?

ङ) गद्यांश से कोई दो सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए?

प्रश्न २ नीचे दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।



प्रश्न ३: A4 sheet पर भारत के किन्हीं पाँच राष्ट्रपतियों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखो।

प्रश्न ४: दिए गए लिंक की सहायता से A4 sheet पर गतिविधि बनाएँ।



<https://youtu.be/LsWBeyuZTOU?si=bbul3XW-G126EtwD>

